

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012020-215388  
CG-DL-E-14012020-215388

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]  
No. 126]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2020

का.आ. 136(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 31 के कि.मी. 153.300 से कि.मी. 204.350 तक के भू-खण्ड (औंटा - सिमरिया खण्ड) का निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 31 के कि.मी. 153.300 से कि.मी. 204.350 तक (औंटा - सिमरिया खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: पटना			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मोकामा					
गांव का नाम: औंटा					
1	2990	निजी	कृषि	0.3632370(एकर)	0.1470000
गांव का नाम: दर्यापुर					
1	831	निजी	कृषि	0.3654610(एकर)	0.1479000
2	843	निजी	कृषि	0.0200150(एकर)	0.0081000
गांव का नाम: मरांची					
1	2735	निजी	कृषि	0.1094651(एकर)	0.0442999
कुल				0.8582	0.3473

[फा. सं. NHAI/12010/02/BGS/2010/Tech/1099/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2020

**S.O. 136 (E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 31 in the stretch of land from Km. 153.300 to Km. 204.350 (Aunta-Simaria Section) in the district of PATNA in the State of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer, Patna, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 153.300 to Km. 204.350 (Aunta- Simaria Section) of the National Highway No. 31, in the district of PATNA in the State of BIHAR**

State: BIHAR		District: PATNA			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
<b>Taluk: Mokama</b>					
<b>Village: Aunta</b>					
1	2990	Private	Agricultural	0.3632370(Acre )	0.1470000
<b>Village: Dariapur</b>					
1	831	Private	Agricultural	0.3654610(Acre )	0.1479000
2	843	Private	Agricultural	0.0200150(Acre )	0.0081000
<b>Village: Maranchi</b>					
1	2735	Private	Agricultural	0.1094651(Acre )	0.0442999
<b>Total</b>				<b>0.8582</b>	<b>0.3473</b>

[F. No. NHAI/12010/02/BGS/2010/Tech/1099/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.